

प्रेस नोट दिनांक 24.07.2021

थाना कोतवाली जनपद बरेली

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा मु0अ0स0 245/2021 धारा 392 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आटो नम्बर यूपी 25 बीटी 0039, लूटा हुआ पर्स जिसमें 7000 हजार रु0, एक मोबाइल एमआई एवं एक अदद तमचा मय 02 अदद कार0 12 बोर बरामद ।

थाना कोतवाली पर दिनांक 09.07.21 को वादिनी मधू यादव पत्नी अमरदीप यादव नि0 177 बाग वृगतान थाना कोतवाली जनपद बरेली द्वारा एक पर्स जिसमें दस हजार रु0 और मोबाइल आदि को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आटो से लूट लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 245/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा टीम गठित कर उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा माल की बरामदगी का काफी प्रयास करने के बाद दिनांक 23.07.2021 को अभियुक्तगण 1. प्रवीण सिंह उर्फ बाबू पुत्र दुर्विजय सिंह नि0 सुभाषचौक थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर 2. शिवम उर्फ ब्रह्मजीत सिंह पुत्र विशाल सिंह नि0 काधरपुर थाना कैन्ट बरेली को बरेली कॉजेल गेट के सामने गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त आटो नम्बर यूपी 25 बीटी 0039, लूटा हुआ पर्स जिसमें 7000 हजार रु0, पर्स में रखी चाबी एवं मोबाइल एमआई तथा अभि0 शिवम उर्फ ब्रह्मजीत सिंह के कब्जे से एक अदद तमचा मय 02 अदद कार0 12 बोर बरामद हुआ है। प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी:-

1. घटना में प्रयुक्त आटो नम्बर यूपी 25 बीटी 0039
2. मोबाइल एमआई
3. लेडीज पर्स भूरे रंग का
4. एक अदद तमचा मय 02 अदद कार0 12 बोर
5. लूटे गये 7000 रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम:-

1. शिवम उर्फ ब्रह्मजीत सिंह पुत्र विशाल सिंह नि0 काधरपुर थाना कैन्ट बरेली।
2. प्रवीण सिंह उर्फ बाबू पुत्र दुर्विजय सिंह नि0 सुभाषचौक थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 245/2021 धारा 392/ 411 भादवि थाना कोतवाली जिला बरेली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनुराधा वर्मा थाना कोतवाली, बरेली
2. उ0नि0 सनी थाना कोतवाली, बरेली
3. का0 845 संजीव कुमार थाना कोतवाली, बरेली
4. का0 2903 अमर राठी थाना कोतवाली, बरेली
5. का0 2807 सुमित चौधरी थाना कोतवाली, बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक कोतवाली
जनपद बरेली।**